

**\*प्रेस नोट\***

**\*दिनांक 03.01.2023\***

**\*थाना हसनपुर पुलिस द्वारा चोरी की विभिन्न घटनाओं का खुलासा कर 03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित 18,170 रूपये नगद बरामद\* ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं श्री अभिषेक कुमार यादव क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 03.01.2023 को थाना हसनपुर पुलिस द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान गजरौला तिराहा, हसनपुर से 03 शातिर चोर 1. फैजान पुत्र खलील 2. आदिल पुत्र आकिल व 3. अजीम पुत्र रफीक निवासी गण मौ० लालबाग कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना हसनपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 488/22 धारा 457/380 भादवि, मु०अ०स० 566/22 धारा 380 भादवि व मु०अ०स० 720/22 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित चोरी गयी धनराशि 18,170 रूपये नगद बरामद हुए । थाना हसनपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण\*:-**

1. फैजान पुत्र खलील निवासी मौ० लालबाग रेतिया थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. आदिल पुत्र आकिल निवासी मौ० लालबाग कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. अजीम पुत्र रफीक निवासी मौ० लालबाग कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

**\*बरामदगी\*:-**

1. 18,170 रूपये नगद ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री विनोद कुमार गोले थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. का0 1304 लालसिंह थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. का0 507 मनीष कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. का0 936 सचिन कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।